

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 1982/आश्विन 1, 1904
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 1982/ASVINA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

अधिवृत्त सं० 5/82

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1982

सं० आई एफ सी/बी एण्ड सी/34वीं/ए जी एम/82. —“भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
सामान्य विनियम, 1982” के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 50 तथा 52 के
अनुसरण में, एनर्द्धाग अधिसूचित किया जाता है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948
(1948 का 15वां) की धारा 34 के अंतर्गत लेखापरिक्षकों के चुनाव के लिए संयुक्त हरिश्चिन्त एण्ड
कम्पनी, सतरी लेखापाल, बम्बई स्पृचुअल चैम्बर, 19/91, अम्बालाल दोषी मार्ग, बम्बई-400023 के पक्ष
में केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है और अतः उक्त संयुक्त हरिश्चिन्त एण्ड कम्पनी को, इस
उद्देश्य के लिए, बुधवार, 6 अक्टूबर, 1982 को रातः 1.00 बजे (ए आई सी आई गोल्डन
ज्वेला ऑडिटोरियम, फंडेशन हाउस, तानमन मार्ग, नई दिल्ली-110001) में बुलाई जाने वाली

निगम के शेयरधारियों की 34वीं वार्षिक महामंडला में, निगम के लेखापरीक्षक के रूप में निर्वाचित मान लिया जाएगा।

डी. एन. डार, कार्यपालक निदेशक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 5/82

New Delhi, the 22nd September, 1982

No. IFC/B&C/34th/AGM/82. —It is hereby notified that in pursuance of Regulations 50 and 52 read with Regulation 33 of "Industrial Finance Corporation of India General Regulations, 1982", only one valid nomination for election of an Auditor under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948) has been received in favour of Messrs Haribhakti and Company, Chartered Accountants, Bombay Mutual Chambers, 19/21, Ambalal Doshi Marg, Bombay-400023, and as such, the said Messrs Haribhakti and Company, shall be deemed to be elected as Auditor of the Corporation at the 34th Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation to be convened for the purpose on Wednesday, the 6th October, 1982, at 4.00 P.M. at FICCI Golden Jubilee Auditorium, Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001.

D. N. DAVAR, Executive Director